



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ५, अंक १७]

गुरुवार, मार्च २८, २०१९/चैत्र ७, शके १९४१

[पृष्ठे १९, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),

जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 28th March 2019

NOTIFICATION

No. GEN. 2019/C.R. 334/19/XXXIII.—In pursuance of sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following are published for General Information :—

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi 110 001, dated the 28th March 2019
7 Chaitra, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

S. O. (E).—Whereas, it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of Sixteenth House of the People ;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union Territories, as the case may be, of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala,

Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh, West Bengal, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli as specified in column (1) of the said Table, to elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder :—

State (1)	Parliamentary Constituency (2)
ASSAM	4-Dhubri 5-Kokrajhar (ST) 6-Barpeta 7-Gauhati
BIHAR	7-Jhanjharpur 8-Supaul 9-Araria 13-Madhepura 25-Khagaria
CHHATTISGARH	1-Surguja (ST) 2-Raigarh (ST) 3-Janjgir-Champa (SC) 4-Korba 5-Bilaspur 7-Durg 8-Raipur
GOA	1-North Goa 2-South Goa
GUJARAT	1-Kachchh (SC) 2-Banaskantha 3-Patan 4-Mahesana 5-Sabarkantha 6-Gandhinagar 7-Ahmedabad East 8-Ahmedabad West (SC) 9-Surendranagar 10-Rajkot 11 -Porbandar 12-Jamnagar 13-Junagadh 14-Amreli 15-Bhavnagar 16-Anand 17-Kheda 18-Panchmahal 19-Dahod (ST)

State (1)	Parliamentary Constituency (2)
	20-Vadodara
	21-Chhota Udaipur (ST)
	22-Bharuch
	23-Bardoli (ST)
	24-Surat
	25-Navsari
	26-Valsad (ST)
JAMMU & KASHMIR	3-Anantnag
KARNATAKA	1-Chikkodi
	2-Belgaum
	3-Bagalkot
	4-Bijapur (SC)
	5-Gulbarga (SC)
	6-Raichur (ST)
	7-Bidar
	8-Koppal
	9-Bellary (ST)
	10-Haveri
	11-Dharwad
	12-Uttara Kannada
	13-Davanagere
	14-Shimoga
KERALA	1-Kasaragod
	2-Kannur
	3-Vadakara
	4-Wayanad
	5-Kozhikode
	6-Malappuram
	7-Ponnani
	8-Palakkad
	9-Alathur (SC)
	10-Thrissur
	11-Chalakydy
	12-Ernakulam
	13-Idukki
	14-Kottayam
	15-Alappuzha
	16-Mavelikkara (SC)
	17-Pathanamthitta
	18-Kollam
	19-Attingal
	20-Thiruvananthapuram

State (1)	Parliamentary Constituency (2)
MAHARASHTRA	3-Jalagaon 4-Raver 18-Jalna 19-Aurangabad 32-Raigad 34-Pune 35-Baramati 37-Ahmednagar 43-Madha 44-Sangli 45-Satara 46-Ratnagiri -Sindhudurg 47-Kolhapur 48-Hatkanangle
ODISHA	3-Sambalpur 4-Keonjhar (ST) 9-Dhenkanal 14-Cuttack 17-Puri 18-Bhubaneswar
UTTAR PRADESH	6-Moradabad 7-Rampur 8-Sambhal 20-Firozabad 21-Mainpuri 22-Etah 23-Badaun 24-Aonla 25-Bareilly 26-Pilibhit
WEST BENGAL	6-Balurghat 7-Maldaha Uttar 8-Maldaha Dakshin 9-Jangipur 11-Murshidabad
DAMAN & DIU	1-Daman & Diu
DADRA & NAGAR HAVELI	1-Dadra & Nagar Haveli (ST)

[F. No. H-11024(1)/2019-Leg. II]

K. BISWAL,
Additional Secretary to the Government of India.

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली 110 001, तारीख 28 मार्च, 2019
7 चैत्र, 1941 (शक)

अधिसूचना

का. आ. (अ).—सोलहवीं लोक सभा की अवधि के अवसान पर नई लोक सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सधारण निर्वाचन कराने का विनिश्चय किया गया है ;

अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जो उक्त सारणी के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली, यथास्थिति, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित हैं, से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा किए गए आदेशों के अनुसार सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करते हैं :—

राज्य (1)	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (2)
असम	4—धुब्री 5—कोक्राझाड़ (अ.ज.जा.) 6—बारपेटा 7—गौहाटी
बिहार	7—झंझारपुर 8—सुपौल 9—अररिया 13—मधेपुरा 25—खगड़िया
छत्तीसगढ़	1—सरगुजा (अ.ज.जा.) 2—रायगढ़ (अ.ज.जा.) 3—जांजगीर-चांपा (अ.जा.) 4—कोरबा 5—बिलासपुर 7—दुर्ग 8—रायपुर
गोवा	1—उत्तर गोवा 2—दक्षिण गोवा
गुजरात	1—कच्छ (अ.जा.) 2—बनासकांठा 3—पाटण 4—मेहसाणा 5—साबरकांठा 6—गांधीनगर 7—अहमदाबाद पूर्व 8—अहमदाबाद पश्चिम (अ.जा.) 9—सुरेन्द्रनगर

राज्य (1)	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (2)
	10—राजकोट 11—पोरबंदर 12—जामनगर 13—जुनागढ़ 14—अमरेली 15—भावनगर 16—आणंद 17—खेड़ा 18—पंचमहाल 19—दाहोद (अ.ज.जा.) 20—बड़ोदरा 21—छोटा उदेपुर (अ.ज.जा.) 22—भरूच 23—बारडोली (अ.ज.जा.) 24—सुरत 25—नवसारी 26—वलसाड (अ.ज.जा.)
जम्मू-कश्मीर	3-अनन्तनाग
कर्नाटक	1-चिक्कोडी 2—बेलगाम 3—बागलकोट 4—बीजापुर (अ.जा.) 5—गुलबर्गा (अ.जा.) 6—रायचूर (अ.ज.जा.) 7—बीदर 8—कोप्पल 9—बेल्लारी (अ.ज.जा.) 10—हावेरी 11—धारवाड 12—उत्तर कन्नड 13—दावन्नोरे 14—शिमोगा
केरल	1—कासरागोड 2—कन्नूर 3—वडकरा 4—वयनाड 5—कोझीकोड 6—मलप्पुरम 7—पोन्नानी 8—पालक्काड 9—अलथूर (अ.जा.) 10—त्रिस्सूर 11—चालाकुडी 12—एरनाकुलम

राज्य (1)	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (2)
महाराष्ट्र	13—इडुक्की
	14—कोट्टयम
	15—अलप्पुझा
	16—मावेलीक्करा (अ.जा.)
	17—पथनमथीट्टा
	18—कोल्लम
	19—अट्टिगल
	20—तिरूवनन्तपुरम
	3—जलगांव
	4—रावेर
	18—जालना
	19—औरंगाबाद
	32—रायगड
	34—पुणे
	35—बारामती
	37—अहमदनगर
	43—माधा
	44—सांगली
	45—सतारा
	46—रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग
ओडिशा	47—कोल्हापूर
	48—हातकणंगले
	3—सम्बलपुर
	4—क्योन्झर (अ.ज.जा.)
	9—धेन्कानल
	14—कटक
	17—पुरी
	18—भुवनेश्वर
उत्तरप्रदेश	6—मुरादाबाद
	7—रामपुर
	8—सम्भल
	20—फिरोजाबाद
	21—मैनपुरी
	22—एटा
	23—बदायूं
	24—आँवला
	25—बरेली
	26—पीलीभीत
पश्चिम बंगाल	6—बालूरघाट
	7—माल्दहा उत्तर
	8—माल्दहा दक्षिण
	9—जंगीपुर

राज्य (1)	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (2)
	11—मुर्शिदाबाद
दमन एवं दीव	1-दमन और दीव
दादरा और नागर हवेली	1—दादरा और नगर हवेली (अ.ज.जा.)

[फा.सं.एच-11024(1)/2019-विधायी.2]

के. बिस्वाल,
अपर सचिव, भारत सरकार।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the

28th March, 2019

7 Chaitra, 1941 (Saka).

NOTIFICATION

No. 464/EPS/2019/(3).—**Whereas**, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the *Gazette of India* on the 28th March, 2019 (Thursday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder ;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby—

(A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,—

(a) **the 4th April, 2019 (Thursday)**, as the last date for making nominations ;

(b) **the 5th April, 2019 (Friday)**, as the date for scrutiny of nominations ;

(c) **the 8th April, 2019 (Monday)**, as the last date for withdrawal of candidatures ;

(d) the date specified in column (3) of the *Schedule* below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule ; and

(e) **the 27th May, 2019 (Monday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies ; and

(B) **Fixes the hours** specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

*Schedule***Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll****PHASE-III**

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll(s)	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
Assam	4—Dhubri	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	5—Kokrajhar (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	6—Barpeta	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	7—Gauhati	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
Bihar	7-Jhanjharpur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	8-Supaul	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	9-Araria	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	13-Madhepura	23rd April 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 0600 PM
	25-Khagaria	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
Chhattisgarh	1-Surguja (ST) PC		
	8-Samri (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	7-00 AM to 3-00 PM (For PS No. 124 Chunchuna and PS No. 125- Punnag) 7-00 AM to 6-00 PM (For Rest PS)
	4-Premnagar AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	5-Bhatgaon AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	6-Pratappur (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	7-Ramanujganj (ST) AC	23rd April 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	9-Lundra (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	10- Ambikapur AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	11-Sitapur (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	2-Raigarh (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	3-Janjgir-Champa (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	4-Korba	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	5-Bilaspur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	7- Durg	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
	8-Raipur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 05-00 PM
Goa	1-North Goa	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	2-South Goa	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
Gujarat	1-Kachchh (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	2-Banaskantha	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	3-Patan	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	4-Mahesana	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	5-Sabarkantha	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	6-Gandhinagar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	7-Ahmedabad East.	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	8-Ahmedabad West (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	9-Surendranagar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	10-Rajkot	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	11-Porbandar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07 00 AM to 06-00 PM
	12-Jamnagar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	13-Junagadh	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	14-Amreli	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	15-Bhavnagar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	16-Anand	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	17-Kheda	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
Jammu & Kashmir	18-Panchmahal	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	19-Dahod (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	20-Vadodara	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	21-Chhota Udaipur (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	22-Bharuch	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	23-Bardoli (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	24-Surat	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	25-Navsari	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	26-Valsad (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	3-Anantnag PC		
	In all the Polling Stations falling in Anantnag District	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	In all the Polling Stations falling in Kulgam District	29th April, 2019 (Monday)	07-00 AM to 06-00 PM
	In all the Polling Stations falling in Shopian and Pulwana District	6th May, 2019 (Monday)	07-00 AM to 06-00 PM
Karnataka	1-Chikkodi	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	2-Belgaum	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	3-Bagalkot	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	4-Bijapur (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	5-Gulbarga (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	6-Raichur (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	7-Bidar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	8-Koppal	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	9-Bellary (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	10-Haveri	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	11-Dharwad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	12-Uttara Kannada	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	13-Davanagere	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	14-Shimoga	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
Kerala	1-Kasaragod	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	2-Kannur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	3-Vadakara	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	4-Wayanad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	5-Kozhikode	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	6-Malappuram	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	7-Ponnani	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
	8-Palakkad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	9-Alathur (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	10-Thrissur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	11-Chalakydy	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	12-Ernakulam	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	13-Idukki	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	14-Kottayam	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	15-Alappuzha	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	16-Mavelikkara (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	17-Pathanamthitta	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	18-Kollam	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	19-Attingal	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	20-Thiruvananthapuram	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
Maharashtra	3-Jalgaon	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	4-Raver	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	18-Jalna	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	19-Aurangabad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	32-Raigad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	34-Pune	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	35-Baramati	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	37-Ahmednagar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	43-Madha	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	44-Sangli	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	45-Satara	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	46-Ratnagiri-Sindhudurg	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	47-Kolhapur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	48-Hatkanangle	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
Odisha	3-Sambalpur PC		
	15-Kuchinda (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 04-00 PM
	18-Rairakhol AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 04-00 PM
	19-Deogarh AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 04-00 PM
	63-Athamallik AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 04-00 PM
	16-Rengali (SC) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	17-Sambalpur AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	62-Chhendipada (SC) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
Odisha	4-Keonjhar (ST) PC		
	25-Champua AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 04-00 PM
	20-Telkoi (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	21-Ghasipura AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	22-Anandapur(SC) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	23-Patna (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	24-Keonjhar (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	30-Karanjia (ST) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	9-Dhenkanal PC		
	59-Pallahara AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 04-00 PM
	61-Angul AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 04-00 PM
	55-Dhenkanal AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	56-Hindol (SC) AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	57-Kamakhyanager AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	58-Parjanga AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	60-Talcher AC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	14-Cuttack PC	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	17-Puri	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	18-Bhubaneswar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
Uttar Pradesh	6-Moradabad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	7-Rampur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	8-Sambhal	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	20-Firozabad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	21~Mainpuri	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	22-Etah	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	23-Badaun	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	24-Aonla	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	25-Bareilly	23rd April, 2019 (Tuesday)	07 00 AM to 06-00 PM
	26-Pilibhit	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
West Bengal	6-Balurghat	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	7-Maldaha Uttar	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	8-Maldaha Dakshin	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	9-Jangipur	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
	11-Murshidabad	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
Dadra and Nagar Haveli	1-Dadra and Nagar Haveli (ST)	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM
Daman & DIU	1-Daman and Diu	23rd April, 2019 (Tuesday)	07-00 AM to 06-00 PM

By Order,

SUMIT MUKHERJEE,
Principal Secretary to the
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 28 मार्च, 2019

7 चैत्र, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं. 464/ईपीएस/2019(3).—**यतः**, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना जिसे **भारत के राजपत्र** में 28 मार्च, 2019 (गुरुवार) में प्रकाशित करवाया गया, के द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं ;

2. **अतः**, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा—

(अ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित निर्धारित करता है :—

(क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख—**4 अप्रैल, 2019 (गुरुवार)**

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख—**5 अप्रैल, 2019 (शुक्रवार)**

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख—**8 अप्रैल, 2019 (सोमवार)**

(घ) नीचे की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख के रूप में निर्धारित करता है जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त **अनुसूची** के कॉलम (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा ; और

(ङ) ऐसी तारीख जिससे पहले उपर्युक्त सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा—**27 मई, 2019 (सोमवार)** ; और

(आ) उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट समय को, **ऐसे समय के रूप में नियत करता है**, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तदनुसूची प्रविष्टि के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए, इसके कॉलम (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मतदान की तारीख एवं समय

चरण-III

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
असम	4—धुब्री	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	5—क्रोक्राझाड़ (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	6—बारपेटा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	7—गौहाटी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
बिहार	7—झंजारपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	8—सुपौल	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	9—अररिया	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	13—मधेपुरा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	25—खगड़िया	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़	1—सरगुजा (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
	8—सामरी (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 03.00 बजे तक (मतदान केन्द्र सं. 124 चुन्चुना और मतदान केन्द्र सं. 125 पुन्नाग के लिए) पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक (शेष मतदान केन्द्रों के लिए).
	4—प्रेमनगर (वि.स.नि.क्षे.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	5—भटगांव (वि.स.नि.क्षे.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	6—प्रतापपुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	7—रामानुजगंज (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	9—लुण्डा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	10—अम्बिकापुर वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	11—सीतापुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	2—रायगढ़ (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	3—जांजगीर-चांपा (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	4—कोरबा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	5—बिलासपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	7—दुर्ग	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
	8—रायपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक
गोवा	1—उत्तर गोवा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	2—दक्षिण गोवा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
गुजरात	1—कच्छ (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	2—बनासकांठा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	3—पाटण	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	4—महेसाणा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	5—साबरकांठा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	6—गांधीनगर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	7—अहमदाबाद पूर्व	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	8—अहमदाबाद पश्चिम (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	9—सुरेन्द्रनगर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	10—राजकोट	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	11—पोरबंदर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	12—जामनगर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	13—जुनागढ़	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	14—अमरेली	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	15—भावनगर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	16—आणंद	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	17—खेडा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
	18—पंचमहाल	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	19—दाहोद (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	20—बड़ोदरा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	21—छोटा उदेंपुर (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	22—भरूच	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	23—बारडोली (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	24—सुरत	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	25—नवसारी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	26—वलसाड (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
जम्मू एवं कश्मीर	3—अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अनन्तनाम जिले में आने सभी मतदान केन्द्रों में	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	कुलगाम जिले में आने सभी मतदान केन्द्रों में	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	शोपियां और पुलवामा जिले में आने सभी मतदान केन्द्रों में	06 मई, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
कर्नाटक	1—चिक्कोडी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	2—बेलगाम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	3—बागलकोट	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	4—बीजापूर (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	5—गुरबर्गा (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	6—रायचूर (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	7—बीदर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	8—कोप्पल	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	9—बेल्लारी (अ.ज.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	10—हावेरी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	11—धारवाड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	12—उत्तर कन्नड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	13—दावनोरे	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	14—शिमोगा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
केरल	1—कासरगोड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	2—कन्नूर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	3—वडकरा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	4—वयनाड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	5—कोझीकोड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	6—मलप्पुरम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	7—पोन्नानी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	8—पालक्काड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
केरल	9—अलथूर (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	10—त्रिस्सूर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	11—चालाकुडी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	12—एरनाकुलम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	13—इडुक्की	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	14—कोट्टयम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	15—अलप्पुझा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	16—मावेलीक्करा (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	17—पथनमथीट्टा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	18—कोल्लम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	19—अर्द्विगल	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	20—तिरुवनन्तपुरम	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
महाराष्ट्र	3—जलगाव	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	4—रावेर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	18—जालना	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	19—औरंगाबाद	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	32—रायगड	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	34—पुणे	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	35—बारामती	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	37—अहमदनगर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	43—माधा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	44—सांगली	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	45—सातारा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	46—रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	47—कोल्हापूर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	48—हातकणंगले	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
ओडिशा	3—सम्बलपुर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
	15—कुचिन्दा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक
	18—रैराखोल वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक
	19—देवगढ़ वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक
	63—अठमल्लिक वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक
	16—रेंगली (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	17—सम्बलपुर वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	62—छेन्दीपाडा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	4—क्योन्झर (अ.ज.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
	25—चम्पुआ वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक
	20—तेलकोई (अ.ज.जा) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	21—घासीपुरा वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	22—आनन्दपुर—(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	23—पटना (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	24—क्योन्झर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
ओडिशा	30—करांजिया (अ.ज.जा) वि.स.नि.क्षे. 9—धेन्कानल, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	59—पल्लाहारा वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक
	61—अंगुल वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक
	55—धेन्कानल वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	56—हिन्दोल (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	57—कामाख्यानगर वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	58—परजंगा वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	60—तालचेर वि.स.नि.क्षे.	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	14—कटक	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	17—पुरी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	18—भुवनेश्वर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
उत्तर प्रदेश	6—मुरादाबाद	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	7—रामपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	8—सम्भल	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	20—फिरोजाबाद	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	21—मैनपुरी	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	22—एटा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	23—बदायूं	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	24—आँवला	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	25—बरेली	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	26—पीलीभीत	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
पश्चिम बंगाल	6—बालूरघाट	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	7—माल्दहा उत्तर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	8—माल्दहा दक्षिण	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	9—जंगीपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
	11—मुरशिदाबाद	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
दादरा और नागर हवेली	1—दादरा और नगर हवेली (अ.ज.जा)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक
दमन एवं दीव	1—दमन और दीव	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अपरा. 06.00 बजे तक.

आदेश से,
सुमित मुखर्जी,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

A. N. VALVI,
Deputy Secretary and
Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

क्रमांक : जीईएन-२०१९/प्र. क्र. ३३४/१९/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक २८ मार्च २०१९.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

- (१) प्रधान सचिव, मा. राज्यपाल यांचे कार्यालय, राजभवन, मुंबई.
- (२) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई.
- (३) विभागीय आयुक्त, सर्व.
- (४) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व.
- (५) लोकसभा मतदारसंघ निवडणूक निर्णय अधिकारी, सर्व (जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत).
- (६) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व.
- (७) लोकसभा मतदारसंघ सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, सर्व (जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत).
- (८) निवडनस्ती.

शुभा बोरकर,

अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.